



#### **IMS NOIDA ORGANISED 6TH INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE**

Intelligence in Human Resource in 2030' Ex. Cabinet Minister, MP and India's Sherpa G7&G20 as a chief guest. Keynote speaker Mr Sahil Nayar, Sr Associate Director, KPMG, Guest of Honour; Prof. (Dr) Manoj Kumar Sinha, Director Indian Law Institute; Adv. Kapil Sankhla, Founder, Sankhla & Associates; Mr Ivan Muniz Rothgiesser, Director en ACCEDU - Acción por la Educación; Ms Veena Sarda, Deep learning

With the aim of dissemination of knowledge Expert & Freelancing Consultant; Mr Rohit about the 'Global Impact of Artificial Gupta, MVP Programmed Coordinator, Intel Al Edge Scholar and Mr Satyapraksh, Legal IMS NOIDA inaugurated its 6th International editor. Tribun also shared their valuable Conference on 23rd April 2021 under the knowledge and experience and made the kind guidance of Shri Rajeev Kumar Gupta event even more insightful with their (President) and Dr Manju Gupta (Dean presence. The conference brought together Academics). Eminent speakers from all all the leading academicians, Professional over the world grace the conference with and research scholars to exchange and their presence. It was an honour and pride share their experiences and research results for IMS Noida to have Sh. Suresh Prabhu, on all viewpoints of Artificial Intelligence and



#### **Business Standard**

DELHI EDITION

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8 Sector-7 Noida Gautam Budh Nagar-201301 and ublished at Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor: Shyamal Majumdar

RNI NO. 57376/1994 Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in

Ph. 011-23720202, Fax :+91-11-2372020 For Subscription and Circulation enquiries please contact:

Ms. Mansi Singh Head-Customer Relations siness Standard Private Limited I/4 & I/3, Building H,Paragon Centre, Opp Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013

E-mail: subs\_bs@bsmail.in "or sms, REACHBS TO 57575


DISCLAIMER News reports and feature rticles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the ut to be different owing to circumstances evond Business Standard's control and nowledge. Business Standard does not ake any responsibility for investment or usiness decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form heir own judgement. Business Standard does not associate itself

divertisements accepted in good faith and ublished by it. Any claim related to the dvertisements should be directed to the dvertisers concerned. Jnless explicitly stated otherwise, all rights eserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. ny printing, publication, reproduction nission or redissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such

with or stand by the contents of any of the

orohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities. **No Air Surcharge** 







## **HDFC Asset Management Company Limited**

A Joint Venture with Standard Life Investments CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 6631 6333 • Fax: 022 6658 0203 E-mail: shareholders.relations@hdfcfund.com • Website: www.hdfcfund.com

#### **EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021**

₹ (in Crore)

Particulars	Quarter Ended March 31, 2021	Year Ended March 31, 2021	Quarter Ended March 31, 2020	Year Ended March 31, 2020		
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)		
Total income from operations	502.93	1,852.53	476.13	2,003.25		
Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	423.01	1,748.95	329.57	1,653.05		
Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	423.01	1,748.95	329.57	1,653.05		
Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	316.08	1,325.76	249.83	1,262.41		
Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	317.82	1,325.07	250.33	1,259.33		
Equity share capital	106.48	106.48	106.40	106.40		
Other Equity (excluding revaluation reserve) as at March 31		4,669.70		3,922.86		
Earnings per share (of ₹ 5 each)						
Basic (₹):	14.84	62.28	11.74	59.37		
Diluted (₹):	14.81	62.16	11.72	59.24		

#### Notes:

- 1. The above results of the Company have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on April 27, 2021. The results have been subject to audit by the Statutory Auditors of the Company
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.hdfcfund.com

Navneet Munot | MD & CEO

Place: Mumbai | Date: April 27, 2021

# ရဲ) **၉၈၆** Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat CIN NO.: L65922DL1988PLC033856

# EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

S. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2020 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)
1.	Total Income from Operations	1,831.68	7,603.92	1,946.44	8,481.84
2.	Net Profit for the period (Before Tax, Exceptional and Extraordinary item)	188.14	1,207.03	(327.24)	811.01
3.	Net Profit for the period Before Tax, (After Exceptional and Extraordinary item)	188.14	1,207.03	(327.24)	811.01
4.	Net Profit for the period after Tax, (After Exceptional and Extraordinary item)	127.03	929.90	(242.06)	646.24
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive Income after tax)	166.62	909.21	(324.01)	590.94
6.	Equity Share Capital	168.27	168.27	168.19	168.19
7.	Reserve (Excluding Revaluation Reserves)/Other Equity		8,754.76		7,829.58
8.	Earnings per Share (of ₹10/- each)*				
	(1) Basic (₹)	7.55	55.29	(14.39)	38.45
	(2) Diluted (₹)	7.55	55.26	(14.38)	38.41

\* EPS for the quarter are not annualised.

The key data relating to standalone results of PNB Housing Finance Limited is as under: (₹ in Crore)

SI. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2020 (Audited)	Year Ended 31-03-2020 (Audited)
1.	Total Income from Operations	1,813.40	7,565.20	1,919.91	8,478.32
2.	Profit before Tax	174.52	1,186.72	(351.18)	825.00
3.	Tax Expense	44.54	261.50	(88.06)	142.69
4.	Net Profit after Tax	129.98	925.22	(263.12)	682.31
5.	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive Income after tax)	169.35	903.97	(345.16)	626.62

# NOTES:

The above-mentioned results for the quarter and year ended March 31, 2021 are reviewed and recommended by the Audit Committee

of Board and subsequently approved by Board of Directors at the meeting held on April 27, 2021 2. The extent to which the COVID 19 pandemic, including the current "second wave" will impact the Company's future results

will depend on economic situation, which is highly unpredictable. The Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions. However, operating in the secured mortgage asset business we believe we hold a much stable asset class which can withstand the pandemic relatively better compared other asset classes. Hon'ble Supreme Court, in a public interest litigation vide an interim order dated September 03, 2020 ('interim order'), has

directed that accounts which were not declared NPA till August 31, 2020 shall not be declared as NPA till further orders. Basis the said interim order, even accounts that would have otherwise been classified as NPA post August 31, 2020 were not been classified as NPA. The interim order granted to not declare accounts as NPA stood vacated on March 23, 2021 vide the judgement of the Hon'ble Supreme Court. In accordance with the instructions in paragraph 5 of the RBI circular dated April 07, 2021 issued in this connection, the Company has continued with the asset classification of borrower accounts as per the extant RBI instructions / IRAC

3. During the quarter ended March 31, 2021, the Company has allotted 75,715 equity shares of ₹ 10 each pursuant to exercise of stock

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for quarter and year ended March 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021, are available on BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and the website of the company (www.pnbhousing.com)

Date : April 27, 2021 Place : New Delhi Regd. Office: 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K. G. Marg, New Delhi-110001(India)

For PNB Housing Finance Limited **Hardayal Prasad Managing Director & CEO** DIN: 08024303

WE ACCEPT PUBLIC DEPOSITS AT ATTRACTIVE RATES OF INTEREST | CALL: 1800-120-8800 | SMS: 'PNBHFL' TO 56161 Website: www.pnbhousing.com

# PUBLIC ANNOUNCEMENT

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT AN OFFER DOCUMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA



# **BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED**

Our Company was originally incorporated as 'Shiva Textiles (CBT) Limited' on July 10, 1989 as a public limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Madras and consequently a certificate of incorporation dated July 10, 1989 and a certificate of commencement of business dated September 14, 1989 was issued to our Company. The name of our Company was changed to 'Bannari Amman Spinning Mills Limited', pursuant to a special resolution of our Shareholders passed in an extra-ordinary general meeting dated September 30, 1991 and a fresh certificate of incorporation dated October 11, 1991, consequent to such name change was issued to our Company by the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Coimbatore. There has not been any change in the registered office of our Company since incorporation

> Registered Office: 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 043, Tamil Nadu, India; Tel: +91 422 243 5555; Fax: NA E-mail: shares@bannarimills.com; Website: www.bannarimills.com; Contact Person: Nachimuthugounder Krishnaraj, Company Secretary and Compliance Officer;
> Corporate Identification Number: L17111TZ1989PLC002476

PROMOTERS OF THE COMPANY: SANGAMPALAYAM VEDANAYAGAM ARUMUGAM, MURUGAN ENTERPRISE PRIVATE LIMITED AND SAKTHI MURUGAN TRANSPORTS PRIVATE LIMITED

ISSUE OF [●] EQUITY SHARES ("RIGHTS EQUITY SHARES") WITH A FACE VALUE OF ₹ 5 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO ₹ 10,000 LAKHS TO OUR ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON A RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF [ ] FULLY PAID-UP RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY [ ] FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, LE. (#THE ISSUE?"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS FOULTY SHARE IS (\*) TIMES THE FACE VALUE OF THE FOULTY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 225 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER ("DLOF").

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended (the "SEBIICDR Regulations"), to state that Bannari Amman Spinning Mills Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of equity shares to equity shareholders onrights basis and has on April 27, 2021 filed the DLOF dated April 26, 2021 with the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI")Southern Regional Office situated at Overseas Towers, 7th Floor, 756 – L, Anna Salai, Chennai – 600 002, Tamil Nadu, India and simultaneously through the SEBI Intermediary Portal at https://siportal.sebi.gov.in, in accordance with SEBI circular dated January 19, 2018 bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2018/011.

Pursuant to Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with SEBI is open to public, for comments, if any. The DLOF is hosted on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of recognized stock exchanges where the equity shares are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of the Sole Lead Manager i.e. Saffron Capital Advisors Private Limited at www.saffronadvisor.com. All members of the public are hereby invited to provide their comments on the DLOF to SEBI with respect to the disclosures made in the DLOF. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company and to the Lead Manager to the Issue at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by the Company or by the Lead Manager on or before 5 p.m. on the 21st (twenty first) day from the aforementioned date of filing the DLOF with SEBI.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note that the distribution of the DLOF and the ssue of equity shares on rights basis to persons in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Accordingly, any person who acquires Rights Entitlements or Rights Equity Shares will be deemed to have declared, warranted and agreed that at the time of subscribing for the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in other restricted jurisdictions. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in any other jurisdiction which have any restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within its jurisdiction, and/or to its citizens. The offering to which the DLOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlement.

Investments in equity and equity related securities involve a high degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read "Risk Factors" carefully before taking an investment decision in relation to this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and the Issue including the risks involved. The securities being offered in the Issue have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the DLOF. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 24 of the DLOF before making an investment in this Issue.

For details of the share capital of the Company, see "Capital Structure" on page 63 of the DLOF. The liability of the members of our Company is limited.

The existing Equity Shares are listed on BSE and NSE. Note: Capitalised terms not defined herein shall have the same meanings ascribed to such terms in the DLOF

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED

Andheri (East), Mumbai - 400 059, Maharashtra, India.

Contact Person: Amit Wagle / Gaurav Khandelwal

SEBI Registration Number: INM 000011211 Validity of Registration: Permanent

605, Center Point, 6th floor, Andheri Kurla Road, J. B. Nagar,

Investor grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com

Telephone: +91 22 4082 0914/915 Facsimile: +91 22 4082 0999

E-mail: rights.issue@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com:

# REGISTRAR TO THE ISSUE

**LINK**Intime

Link Intime India Private Limited C - 101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West),

Mumbai – 400 083, Maharashtra, India Telephone: +91 22 4918 6200 Facsimile: +91 22 4918 6195 E-mail: bannari.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in;

Contact person: Sumeet Deshpande Investor grievance: bannari.rights@linkintime.co.in CIN: U67190MH1999PTC118368 SEBI Registration No: INR000004058

Validity of Registration: Permanent For and on behalf of BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED

Nachimuthugounder Krishnaraj

Disclaimer: "Bannari Amman Spinning Mills Limited" is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on rights basis and has filed a DLOF with the Securities and Exchange Board of India. The DLOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and the website of the Lead Manager at Saffron Capital Advisors Private Limited at www.saffronadvisor.com. Investors should note that investment in securities involves a high degree of risk and are requested to refer to the DLOF, including the section "Risk Factors" beginning on page 24 of the DLOF."

Date: April 27, 2021

SAFFRON

Company Secretary and Compliance Officer

#### HIMACHAL PRADESH **PUBLIC WORKS DEPARTMENT**

	INVITATION FOR BIDS (IFB)							
Sr. No.	Name of Work Cost (in Rs.)	Estimated (in Rs.)	EMD (in Rs.)	Cost of Tender (in Rs.)	Eligible class of Contractor			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Ordinary repair to Paonta Rajban Shillai Meenus Hatkoti road NH 72B (New NH 707) Km 0/00 to 105/00 (SH:- Construction of PCC R/wall at RD 101/802 to 101/820).	Rs. 10,77,587/- only	21,552/- only	500/-	Class "C" & "D"	2 Months		

- The Executive Engineer HPPWD NH Division Nahan Distt. Sirmaur(H.P) on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned works from the eligible and approved contractors/Firms registered with PWD Department.
- Availability of Bid Document and mode of submission: The Bid document is available online and bid should be submit ted in online mode on website https://www.eprocure.gov.in/eprocure/app.Bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and pass-https://www.eprocure.gov.in/eprocure/app . Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender
- 3. Key Dates:

1.	Date of Online Publication	30.04.2021 at 1600 HRS
2.	Document Download Start and End Date	30.04.2021 at 1630 HRS to 10.05.2021 up to 1100 HRS
3.	Bid Submission Start and End Date	30.04.2021 at 1630 HRS to 10.05.2021 up to 1100 HRS
4	Date of Technical Rid opening	11 05 2021 up to 1100 HRS

- TENDER DETAILS:
  - The Tender Documents shall be uploaded online in 2 Cover: Cover 1: shall contain scanned copies of all "Technical Documents/ Eligibility Information" Cover2: shall contain "BOQ/Financial Bid", where contractor will quote his offer for each item
- BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on 11.05.2021 at 1100 HRS in the office of Executive, Engineer HPPWD NH Division Nahan H.P. by the authorised officers. In their interest the tenderer are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
- . The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 120 days after the deadline date for bid
- Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender
- All rates quoted by contractors shall be inclusive of all modes of leads, lifts & heights and also taxes/levies unless specified to the contrary including service tax as applicable w.e.f. 1st April, 2015 as per Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 6/2015-Service tax dated 1st March, 2015. All the excavated/surplus earth/dismantle material/waste etc. shall be dumped at the site to be arranged by the contractor unless otherwise specified to the contrary and to the satisfaction of Engineer-in-Charge
- The provisions of notification issued vide Add. Chief Secretary (PW) to the Govt. of HP, Shimla Notification No.PBW(B)22-1/2002 dated 26.05.2015 shall also be applicable
- 10. The provision of notification issued vide Add. Chief Secretary (PW) to the Govt. of H.P. Shimla notification No PBW(B)C(17)2/2012 dated 07.08.2018 shall also be applicable.

HPPWD NH Division Nahar Distt Sirmaur H.P on behalf or Governor of Himachal Pradesh Tel/Fax: 01702-222202

0448\_2021-2022



Finance Limited Char Ki Baat

Regd. Office: 9th Floor Antriksh Bhawan, 22 K. G. Marg, New Delhi-110001 CIN: L65922DL1988PLC033856

Disclosures in compliance with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the half vear ended March 31, 2021

- Credit Ratings assigned to Secured Redeemable Non-Convertible Debentures (NCDs) issued by the Company have been assigned CARE Rating of "CARE AA" (Stable Outlook), India Ratings and Research Pvt. Ltd. "IND AA" (Negative Outlook), CRISIL Ltd. "CRISIL AA" (Negative Outlook), ICRA Ltd. "ICRA AA" ((Negative Outlook), CRISIL Ltd. "CRISIL AA" (Negative Outlook), ICRA Ltd. "ICRA AA" ((Negative Outlook), CRISIL Ltd. "CRISIL AA" (Negative Outlook), ICRA Ltd. "ICRA AA" ((Negative Outlook), CRISIL Ltd. "CRISIL AA" (Negative Outlook), ICRA Ltd. "ICRA AA" ((Negative Outlook), ICRA Ltd. "ICRA AA" (Negative Outlook), ICRA Ltd
- Credit Ratings assigned to Commercial Papers (CPs) issued by the Company: CARE Ratings Limited A1+, CRISIL Ltd. A1+ Asset cover available as on March 31, 2021 in case of the NCDs issued by the Company: 1.02 times
- Debt Equity Ratio as on March 31, 2021: 6.73 times
- The Company has paid interest and principal on Secured Redeemable Non-Convertible Debentures and Commercial Papers on due dates. Details of payment
- of interest/principal on NCDs and CPs is provided in Annexure-A.1 Paid up debt capital/Outstanding debt: Rs 11,871.70 Crore
- Outstanding Redeemable Preference Shares: NIL
- Debenture Redemption Reserve as on March 31, 2021: NIL Net worth as on March 31, 2021: Rs. 8867.18 Crore
- Net Profit after Tax: Rs 353.25 Crore

Earnings per share (EPS): Basic EPS Rs. 55.01 and Diluted EPS Rs.54.98 Annexure A.1 Details of payment of interest /principal on the Secured Redeemable Non-Convertible Debentures in accordance with Regulation 52(4)(d) and Regulation 52(4)(e) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

S No	NCD Series	ISIN	(October 1, 2020	to March 31, 2021) (April 1, 2021 to Sep			(April 1, 2021 to Se	ptember 30, 2021)
			Due date for Interest payment	Due date for Principal repayment	Due date for Interest payment	Amount (in ₹ Crore)	Due date for Principal repayment	Amount (in ₹ Crore)
1	Series VIIC	INE572E09080	16.01.2021	16.01.2021	-	-	-	-
2	Series VIID	INE572E09098	31.03.2021	-	30.09.2021	1.38	-	-
3	Series VIIE	INE572E09106	31.03.2021	-	30.09.2021	1.38	-	-
4	Series X	INE572E09148	31.03.2021	-	26.07.2021	6.09	26.07.2021	200.00
5	Series XI	INE572E09155	31.03.2021	-	12.09.2021	8.63	12.09.2021	200.00
6	Series XII	INE572E09163	31.03.2021	-	30.09.2021	13.88	-	-
7	Series XIII	INE572E09171	31.03.2021	-	30.09.2021	8.15	-	-
8	Series XIV	INE572E09189	31.03.2021	-	30.09.2021	9.00	-	-
9	Series XV	INE572E09205	31.03.2021	-	30.09.2021	25.74		-
10	Series XVII-B	INE572E09239	31.03.2021	-	30.09.2021	14.22		-
11	Series XXIII	INE572E09304	09.11.2020	09.11.2020	-	-	-	-
12	Series XXV	INE572E09338	31.03.2021	-	03.07.2021	10.73	03.07.2021	500.00
13	Series XXVI	INE572E07019	31.03.2021	31.03.2021	-	-		-
14	Series XXVII	INE572E09353	31.03.2021	-	01.09.2021	10.54	01.09.2021	300.00
15	Series XXVIII-A	INE572E09361	31.03.2021	-	01.07.2021	31.25	01.07.2021	1464.00
16	Series XXX	INE572E09403	31.03.2021	-	30.09.2021	9.89	-	
17	Series XXXII	INE572E09429	31.03.2021	-	07.05.2021	2.53	07.05.2021	320.00
18	Series XXXIV-B	INE572E09452	15.12.2020	15.12.2020				-
19	Series-XXXVI-B	INE572E09486		-	31.07.2021	53.13	-	-
20	Series XLI-B	INE572E09551	31.12.2020	31.12.2020	-	-		
21	Series- XLII	INE572E09569	15.03.2021	15.03.2021				
22	Series XLIII-B	INE572E09585	-	-	06.04.2021	53.28*	06.04.2021	189.00
23	Series XLVIII-A	INE572E09601		-	30.08.2021	9.19	30.08.2021	105.00
24	Series XLVIII-B	INE572E09619			30.08.2021	31.95		
25	Series LII	INE572E09643		-	19.08.2021	86.41		-
26	Series II-Tier II	INE572E09197	31.03.2021		30.09.2021	9.10	-	
27	Series III Tier II	INE572E09262	31.03.2021	-	30.09.2021	8.70		
28	Series IV-Tier II	INE572E09320	31.03.2021		30.09.2021	8.84	-	
29	Series V-Tier II	INE572E09346	31.03.2021	-	30.09.2021	12.17		
30	Series VI-Tier II	INE572E09387	31.03.2021	-	30.09.2021	21.38		
31	Series VII- Tier II	INE572E09627	07.01.2021	-		-		-
32	Series VIII- Tier II	INE572E09627	07.01.2021	-	-	-	-	-
33	Series -LI	INE572E07068	07.11.2020	-	-	-	-	-
			•					

\*not an interest but premium on redemption of zero coupon bond
Details of redemptions of Commercial Paper in accordance with Regulation 52(4)(d) and Regulation 52(4)(e) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

S.No.	<b>CP</b> Series	ISIN	Previous Due Date (October 1, 2020 to March 31, 2021)				Principa (April 1, 2021 to Septe	
	,		Due date for Principal repayment	Amount (INR₹ Crore)	Due date for Principal repayment	Amount (INR₹Crore)		
1	CP-474	INE572E14IE0	23-Dec-20	100	-			
2	CP-478	INE572E14II1	17-Nov-20	500	-			
3	CP-479	INE572E14IJ9	25-Nov-20	500				
4	CP-475	INE572E14IF7			04-June-21	500		
5	CP-476	INE572E14IG5	-		11-June-21	75		
6	CP-477	INE572E14IH3	-		23-June-21	400		

For PNB Housing Finance Limited Sanjay Jain **Company Secretary and Head Compliance** 

# murugappa

# Cholamandalam MS General Insurance Company Limited

Registered Office: Dare House, No. 2, N.S.C. Bose Road. Chennai 600 001. India. T: +91-44 40445400, F: +91-44 40445550 IRDA Registration No. 123; Date of Registration with the IRDA: July, 15, 2002. CIN: U66030TN2001PLC047977

MSIG

SOUTH WEEK

CHOLAMANDALAM MS TRANSFORMATION

4 - F

Net Worth = Share Capital+Reserves & Surplus-Miscellaneous Expenses-Debit balance of Profit and Loss Account

Retention Ratio = Net Written Premium /

Net Commission / Net Written Premium

Liquid Assets represent Cash and Cash Equivalents and Short term investments

Net Written Premium = Gross Written

((Net Incurred Claims/Net Earned

remium) +(Net Commission +

Expenses)/Net Written Premium)

Gross Written Premium

CMS/YEAR -FIN RES-2021/ADVT/ENG/2541/A

FORM NL-1A-B-RA-REVENUE ACCOUNT (₹ in						(₹ in Lakhs)		
Particulars	Year ended March 31, 2021			Ye	Year ended March 31, 2020			
Faiticulais	Fire	Marine	Miscellaneous	Total	Fire	Marine	Miscellaneous	Total
Gross Written Premium	44,471	7,855	3,86,495	4,38,821	33,996	8,965	3,96,889	4,39,850
Net Written Premium	18,531	2,918	3,14,310	3,35,759	14,426	2,220	3,24,274	3,40,920
Premium Earned (Net)	12,319	2,522	3,05,402	3,20,243	9,591	1,999	3,32,111	3,43,701
Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Investments (net)	452	32	11,920	12,404	623	41	15,701	16,365
Contribution from Shareholders funds towards Excess EoM	-	-	14,649	14,649	-	-	8,766	8,766
Administrative Charges	33	8	3	44	20	8	3	31
Investment Income from Pool	760	-	224	984	315	-	33	348
Interest, Dividend & Rent - Gross	2,139	150	56,384	58,673	2,024	133	50,985	53,142
TOTAL (A)	15,703	2,712	3,88,582	4,06,997	12,573	2,181	4,07,599	4,22,353
Claims Incurred (net)	4,166	1,855	2,25,963	2,31,984	4,055	1,152	2,52,521	2,57,728
Commission (net)	(1,917)	(352)	7,755	5,486	(991)	(454)	6,640	5,195
Operating Expenses related to Insurance business	5,333	739	1,05,411	1,11,483	2,408	850	1,02,270	1,05,528
Premium Deficiency	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (B)	7,582	2,242	3,39,129	3,48,953	5,472	1,548	3,61,431	3,68,451
Operating Profit C=(A-B)	8,121	470	49,453	58,044	7,101	633	46,168	53,902
APPROPRIATIONS								
Transfer to Shareholders' Account	8,121	470	49,453	58,044	7,101	633	46,168	53,902
Transfer to Catastrophe Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to Other Reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8,121	470	49,453	58,044	7,101	633	46,168	53,902

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
SOURCES OF FUNDS	,	,
Share Capital	29,881	29,881
Reserves and Surplus	1,58,575	1,30,409
Fair Value Change Account - Shareholders	281	(233)
Fair Value Change Account - Policyholders	2,411	(2,649)
Borrowings	10,000	10,000
TOTAL	2,01,148	1,67,408
APPLICATION OF FUNDS		
Investments - Shareholders	1,16,141	72,849
Investments - Policyholders	9,89,910	8,34,998
Loans	-	-
Fixed Assets	7,267	7,236
Deferred Tax Assets	19,786	16,018
CURRENT ASSETS		
Cash and Bank Balances	3,371	4,152
Advances and Other Assets	1,14,443	1,18,939
Sub-Total (A)	1,17,814	1,23,091
Current Liabilities	8,09,283	6,61,944
Provisions	2,40,487	2,24,840
Sub-Total (B)	10,49,770	8,86,784
Net Current Assets ( C) = (A - B)	(9,31,956)	(7,63,693)
Miscellaneous Expenditure	-	-
Debit Balance in Profit and Loss Account	-	-
TOTAL	2,01,148	1,67,408

Disclosures pursuant to Regulation 52 of SEBI LODR Regulations read with Circular IRDA/F&A/CIR/LFTD/027/01/2017 dated 30 January 2017

(₹ in Lakhs) Year ended 31 Mar 2019 Year ended 31 Mar 2020 Year ended 31 Mar 2021 4.38.821 4.39.850 4.42.816 Premium Income (Gross) Net Profit / (Loss) for the year (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) 37,478 25.460 25,059 Net Profit / (Loss) for the year before tax(after Exceptional and / or Extraordinary items) 37,478 25,460 25,059 Net Profit / (Loss) for the year after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) 28,167 14,944 17,894 29,881 29,881 29,881 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet 1,58,575 1,30,409 1,15,465 Earnings Per Share (of Rs.10/-each) 9.43 5.00 5.99 (for continuing and discontinued operations) - Basic & Diluted

**AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021** 

FORM NL-2A-B-PL-PROFIT & LOSS ACCOUNT		(₹ in Lakhs
<b>.</b>	Year e	ended
Particulars	March 31, 2021	March 31, 2020
OPERATING PROFIT / (LOSS)		
Fire Insurance	8,121	7,101
Marine Insurance	470	633
Miscellaneous Insurance	49,453	46,168
INCOME FROM INVESTMENTS		
Interest & Dividend - Gross of TDS	6,884	4,635
Profit /(Loss) on Sale of Investments	1,455	1,427
OTHER INCOME		
Profit/(Loss) on sale of assets & Other Income	-	
TOTAL (A)	66,383	59,964
PROVISIONS (Other than Taxation)		
For diminution in the value of investments		
/reversal of provision(net)	92	(289)
For doubtful debts/Investments (Refer Note 9)	(8,234)	15,732
For other assets		12
OTHER EXPENSES		
Expenses other than those related to Insurance business	1,970	781
Bad debts/Investments written off (Refer Note 9)	18,595	7,773
Contribution to Policyholders Funds towards Excess of EoM	14,649	8,766
Others	1,833	1,729
TOTAL (B)	28,905	34,504
Profit before tax ( C) = (A - B)	37,478	25,460
Current Tax	13,080	10,300
Deferred Tax	(3,769)	216
Profit after Tax	28,167	14,944
LESS APPROPRIATIONS		
(a) Dividend paid	-	
(b) Dividend Distribution Tax paid	-	-
(c) Transfer to General Reserve	15,000	10,000
(d) Transfer to Debenture redemption Reserve	-	-
Balance of Profit Brought forward from previous year	50,607	45,663
Balance carried forward to Balance Sheet	63,774	50,607

FORM NL-30A-KEY ANALYTICAL RATIOS Year ended **Particulars** March 31, 2021 March 31, 2020 Gross Written Premium (Direct) Growth (0.23%)Gross Premium to Net Worth@ (No.of times) 2.33 2 79 Growth rate of Net Worth@ 19.72% 8.30% 77.31% Net Retention Ratio \$ 76.30% 1.52% 1.63% Net Commission Ratio / 33.50% 31.42% Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio Expenses of Management to Net Written Premium Ratio ## 43.79% 40.54% Net Incurred Claims to Net Earned Premium 72.44% 74.99% Combined Ratio # 107.28% 107.46% Technical Reserves to Net Premium Ratio (No.of times) 2.95 2.22 Underwriting Balance Ratio (No.of times) (0.09)(0.07)@@ (Underwriting Results + Investment Income) / Net Earned Premium Operating Profit Ratio @@ 18.12% 15.68% Liquid Assets to Liabilities Ratio \$\$ (No.of times) Net Earnings Ratio 8.39% 4.38% Return on Networth 14.95% 9.49% Available Solvency Margin to Required Solvency Margin (No.of times) 2.08 1.58 NPA Ratio - Gross 1.46% 3.83%

lotes

The above audited Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting on April 27, 2021.

Fire & Miscellaneous Revenue Accounts include the results of the Terrorism Pool upto December 2020 only. The results for the subsequent period will be recognised on receipt of the statements from GIC Re, the Pool Manager.

Miscellaneous Revenue Accounts include the results of the Indian Nuclear Insurance Pool upto September 2020 only. The results for the subsequent period will be recognised on receipt of the statements from GIC Re, the Pool Manager.

Provisioning for IBNR / IBNER in the Revenue Accounts is based on the certificate from the Appointed Actuary of the Company.

or the company.

As at March 31, 2021, Debenture Redemption reserves is Rs.2000.00 lakhs. Pursuant to amendment vide Ministry of Corporate Affairs notification no. G. S. R574 (E) dated August 16, 2019 of Companies (Share capital and Debenture) Rules, 2014 the Company is not required to create any additional Debenture Redemption Reserves. Accordingly the Company continues to hold the existing DRR of Rs. 2,000 Lacs as at March 31, 2021.

Credit Rating "AA Stable" by CRISIL and "AA Stable" by ICRA for non convertible debentures Due date of payment of next coupon interest on debentures is 25° May 2021 and principal repayment is due on 25° May 2027.

Interest on non-convertible debentures accrued upto March 31, 2021 is Rs. 304, 45 lakhs The Company has invested in debt securities of certain companies aggregating Rs. 44,715 Lakhs as at 31 March 2021 which have defaulted repayment of principal and payment of interest to the Company in certain securities/downgraded to default category. These investments are classified as Non-performing Assets as per Companies Impairment policy which is in line with Prudential Norms for Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and Other Related Matters in respect of debt portfolio issued by IRDAI.

Accordingly, cumulative provision for diminution in value of investments of Rs. 9,000 lakhs and write off of investments of Rs 28,569 lakhs has been accounted as at 31 March 2021 resulting in the carrying value of these investments at Rs. 7,146 lakhs as at 31 March 2021. This includes write of for Rs. 18,595 lakhs accounted in the profit and loss account during the year and reversal of opening provision for diminution in value of investments of Rs. 8,234 lakhs during the year pursuant to write off of 10. In light of the Covid – 19 outbreak and the information available upto the date of approval of these financial statements, the

1.93%

Company has assessed the impact of Covid-19 on its operations, and its financial statements. The assessment includes but not limited to valuation of policy related liabilities and solvency position of the Company as at March 31, 2021. The Company continues to closely monitor the implications of the second wave of its operations and financial statements, which are

confinues to closely monitor the implications of the second ware on a population where the dependent on emerging uncertain developments.

The Code on Wages, 2019 and the Code on Social Security, 2020 relating to employee benefits, during employment and postemployment, received Presidential assent on September 28, 2020. These codes have been published in the Gazette of India. However, the date on which these codes will come into effect has been deferred and the rules for quantifying the financial impact are yet to be framed. In view of this, the Company will assess and record the financial impact of these codes when it

For Cholamandalam MS General Insurance Company Limited V Suryanarayanan Managing Director

Date: April 27, 2021 Place: Chennai Chola 
 MS







Toll Free No: 1800 208 5544 \* 'SMS Chola to 56677' www.cholainsurance.com

NPA ratio - Net






0.65%























# मध्य प्रदेश ने दिए कोविशील्ड टीके के ऑर्डर

संदीप कुमार

ध्य प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का 🖣 टीकाकरण शुरू करने के क्रम में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड टीके की 45 लाख खुराकों का पहला ऑर्डर दे दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य आयक्त आकाश त्रिपाठी ने इसकी पृष्टि करते हुए बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'हां हमने सीरम इंस्टीट्यूट को टीके की 45 लाख खुराक का ऑर्डर दिया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में टीकाकरण की गति यथासंभव तेज की जाए।' अनमान है कि इस ऑर्डर पर सरकार करीब 180 करोड रुपये खर्च करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन टीके की हर खराक की कीमत 600 रुपये है जबिक कोविशील्ड की कीमत प्रति खुराक 400 रुपये है। यही कारण है कि सरकार ने आरंभिक ऑर्डर कोविशील्ड का दिया गया है।

प्रदेश में 18 से 45 वर्ष की उम्र के करीब 3.40 करोड लोगों के टीकाकरण पर सरकार को 2.700 करोड रुपये से अधिक की राशि व्यय करनी होगी। प्रदेश सरकार आगामी एक मई से शुरू हो रहे सप्ताह में इंदौर और भोपाल में करीब एक लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य बना चकी है। ये दोनों जिले कोविड संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित है।

राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं कि मध्य प्रदेश शरुआत से ही टीकाकरण के मामले में देश के अन्य राज्यों से अच्छी स्थिति में रहा है। प्रदेश में अब तक करीब 80 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। ये सभी फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं। उन्होंने अनमान जताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू होते ही यह आंकडा और तेजी से सुधरेगा।



इंदौर और भोपाल में करीब एक लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य

# दिल्ली, महाराष्ट्र की ऑक्सीजन आयात योजना

पृष्ठ १ का शेष

महाराष्ट्र संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है जहां 670,000 से अधिक कोविड-19 के सिक्रय मामले हैं। इसने अस्पतालों में ऑक्सीजन के उपयुक्त इस्तेमाल के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। फिलहाल राज्य में 1615 टन से अधिक ऑक्सीजन की खपत हो रही है और राज्य के बाहर से लगभग 300-350 टन की डिलिवरी की जा रही थी। एसओपी के जरिये यह यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की बरबादी न हो और ऑक्सजीन प्रवाह की निगरानी के लिए नर्सों की नियुक्ति करने जैसे उपायों के साथ ही खपत की जांच के लिए अस्पताल स्तर के ऑडिट की बात भी की जा रही है।

टोपे ने कहा कि इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के रायगढ जिले में जेएसडब्ल्य स्टील संयंत्र में 100 बेड वाले कोविड-19 सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। कोविड-19 सुविधा केंद्र के लिए संयंत्र में तैयार की गई ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ऑक्सीजन की कमी से देश भर में कई मौतें हुई हैं जिससे केंद्र सरकार का अधिकारप्राप्त समृह 2 (ईजी2) प्रत्येक राज्य के लिए ऑक्सीजन कोटे पर फैसला ले रहा है। केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इलाज के लिए औद्योगिक ऑक्सीजन को सुरक्षित किए जाने के बाद तरल

मेडिकल ऑक्सीजन का पर्याप्त घरेलू उत्पादन हुआ लेकिन लॉजिस्टिक से जुड़ी दिक्कतें आपूर्ति में बाधा बन रही थीं।

राज्य ही लॉजिस्टिक्स के प्रभारी हैं जिनमें टैंकरों की व्यवस्था करना, अस्पतालों और जिले के लिए इनका आवंटन करना, शहर के भीतर टैंकरों की निर्बाध आवाजाही की व्यवस्था करना शामिल है।

बैंकॉक के अलावा, भारत कंपनियों से करार कर दुबई, शांघाई और डसेलडॉर्फ से टैंकरों का आयात कर रहा है जो टैंकरों के मालिक हैं। टाटा ने सिंगापुर से कुछ दिन पहले ही चार टैंकर खरीदकर भारतीय वायुसेना के विमान के जरिये

लॉजिस्टिक्स में सुधार के तहत परिवहन की जरूरत कम करने के लिए ऑन–साइट ऑक्सीजन विनिर्माण केंद्र या पीएसए बनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ पीएसए निर्माण की मंजुरी अक्टूबर में केंद्र सरकार के निविदा के जरिये मिली थी लेकिन इनमें से अधिकांश बन नहीं पाए थे। इसी तरह लोग अपने घर में वायुमंडल की हवा से ऑक्सीजन पाने के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगा सकते हैं। घरेलू बाजार में इन कॉन्सेंट्रेटर्स की आपूर्ति कम है लेकिन इनकी वजह से सिलिंडरों की मांग पर दबाव कम हो सकता है जिनका इस्तेमाल आमतौर पर कम ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों के लिए किया

# निजी अस्पताल लौटाएंगे टीके

इस बीच मुंबई, दिल्ली और बेंगलूरु की प्रमुख निजी अस्पताल शृंखलाओं ने संकेत दिया है कि राज्य प्रशासने की ओर से उन्हें अनौपचारिक रूप से ऐसा किए जाने की जानकारी दी चकी है। मंबई में नगर निकाय ने निजी अस्पतालों को आश्वस्त किया है कि वह मई में टीकाकरण के लिए खराक उपलब्ध कराने में मदद करेगा। मंबई के एक अस्पताल के प्रशासक ने कहा, 'आज नगर निकाय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया कि वे फिलहाल कोविड टीकों की आपूर्ति में मदद करेंगे। हमें नहीं पता कि हमें टीके किस दर पर खरीदने होंगे। हम आशा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें और अधिक स्पष्टता आएगी।' यह स्पष्ट नहीं है कि क्या महाराष्ट्र टीकों की आपूर्ति उसी दर पर करेगा जिस दर पर उसने खरीद की है। दरअसल राज्यों और निजी अस्पतालों के लिए टीके की दर अलग-अलग है।

इस बीच अस्पतालों को भी लग रहा है कि 30 अप्रैल तक उपलब्ध टीकों का मिलान करना होगा। एक सूत्र ने कहा, 'हमारे पास 150 रुपये प्रति खुराक की दर से खरीदे गए कितने टीके बचते हैं और नगर निकाय से नई आपूर्ति कितनी होती है यह देखना होगा। यदि हमसे कहा गया तो हम बचे हुए टीके घाटकोपर में उस कोल्ड चेन प्वाइंट को लौटा देंगे जहां से हमने टीके खरीदे थे।' निजी अस्पतालों ने टीका उत्पादकों से भी चर्चा शरू कर दी है। हिंदजा हॉस्पिटल मुंबई के सीओओ जॉय चक्रवर्ती कहते हैं. 'हम आपर्ति, कीमतों और खरीद के बारे में टीका निर्माताओं से चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इन विषयों पर बातें और अधिक स्पष्ट होंगी।' केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा उसमें कहा गया था कि राज्य सरकारों को '30 अप्रैल तक ऐसे टीकों के पूर्ण उपयोग का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए और उसके पश्चात ही निजी सीवीसी को आपर्ति करनी चाहिए।' महाराष्ट्र सरकार ने सीरम इंस्टीटयट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक दोनों कंपनियों को 26 अप्रैल को पत्र लिखकर उनसे यह जानकारी मांगी कि मई से लेकर अगले छह महीने में कंपनियां टीकों की कितनी खुराक की आपूर्ति करने की स्थिति में हैं। महाराष्ट्र ने कहा है कि उसे 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए 12 करोड़ ख़ुराक की आवश्यकता है। उसने टीका निर्माताओं से कहा है कि वे जिस कीमत पर टीकों की आपर्ति करना चाहती हैं उसका उल्लेख करें। केंद्र सरकार ने सोमवार को दोनों टीका निर्माताओं से कीमतें कम करने को कहा था जिसके बाद कीमतों को लेकर अस्पष्टता बढ गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने संकेत दिया था कि वह राज्य सरकारों से प्रति खुराक 400 रुपये की कीमत वसलेगी जबकि निजी अस्पतालों को टीके की एक खुराक 600 रुपये में दी जाएगी। भारत बायोटेक ने कहा था कि वह राज्य सरकारों को टीके की एक ख़ुराक 600 रुपये में जबकि निजी अस्पतालों को 1,200 रुपये में देगी। इस बीच कोविन ऐप्लीकेशन में संशोधन किया गया है ताकि हर निजी सीवीसी टीके के प्रकार, उपलब्धता के आंकड़े तथा उसकी कीमत का उल्लेख कर सके।

# निचले स्तर पर पहुंचा खुदरा बाजार

कृष्ण कांत

**खुदरा** एवं मनोरंजन स्थलों पर आने वाले लोगों की संख्या लगभग सात महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. जो स्थिति कोरोना की पहली लहर के चरम के समय थी।

ये आंकडे सर्च इंजन गगल के मोबिलिटी ट्रैकर पर आधारित हैं। यह समाचार पत्र विभिन्न स्थानों से डेटा संग्रह करके विश्लेषण करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लोग महामारी के दौरान किस तरह आवाजाही कर रहे हैं। ये नवीनतम आंकडे 21 अप्रैल तक के हैं। यह दर्शाता है कि महामारी से पूर्व की तुलना में खुदरा और मनोरंजन स्थलों पर जाने वाले लोगों की संख्या में 41.6 प्रतिशत की कमी आई है। ट्रांजिट स्टेशनों और कार्यस्थलों में भी आवाजाही में गिरावट देखी गई है।

तथ्य यह है कि लोग बहत कम

साप्ताहिक

बाहर जा रहे हैं इसकी भी पुष्टि ट्रैफिक भीड डेटा द्वारा की जाती हैं। नई दिल्ली का यातायात 71 फीसदी गिरा है क्योंकि राजधानी

संकेतक संक्रमण की नई लहर से जझ रही है। वित्तीय राजधानी कही जाने वाली मुंबई ने ग्लोबल लोकेशन टेक्नोलॉजी फर्म टमटम इंटरनैशनल द्वारा जारी यातायात आंकडों में 83 फीसदी की गिरावट देखी गई है। जनवरी में यह गिरावट 25 फीसदी से कम थी। नाइट्रोजनडाइऑक्साइड का उत्सर्जन साल 2019 की तुलना में दिल्ली और मुंबई दोनों में आधा हो गया है। नाइट्रोजनडाइऑक्साइड वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों



कोरोना की दूसरी लहर के कारण दिल्ली और मुंबई दोनों में आवाजाही बहुत अधिक प्रभावित हुई है

से आती हैं। दोनों जगहों का पिछले सप्ताह का उत्सर्जन साल 2019 की तुलना में कम हुआ है। बांद्रा इलाके के आंकड़ों के आधार पर मुंबई में हई कमी, दिल्ली में हुई कमी की तुलना में थोडी अधिक रही है।

मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक गतिविधि कम

होने के कारण बिजली उत्पादन कम हो गया था। लॉकडाउन इस बार अधिक स्थानीय हो गए हैं। नवीनतम सप्ताह की बिजली उत्पादन में वृद्धि, पिछले सप्ताह की वृद्धि के बराबर है। यह

साल 2019 की समान अवधि की वृद्धि की तुलना में लगभग 8.2 प्रतिशत अधिक है।

भारतीय रेलवे ने पिछले साल इस दौरान गतिविधि में भारी गिरावट देखी थी। साल 2020 का आधार प्रभाव, चाल वर्ष में इसकी वद्धि का कारण बना है। साल 2020 के लॉकडाउन के इन दिनों की तुलना के प्रभाव के कारण माल और राजस्व दोनों की मात्रा में वृद्धि हई है।

## PUBLIC ANNOUNCEMENT

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT AN OFFER DOCUMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR



# **BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED**

Our Company was originally incorporated as 'Shiva Textiles (CBT) Limited' on July 10, 1989 as a public limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Madras and consequently a certificate of incorporation dated July 10, 1989 and a certificate of commencement of business dated September 14, 1989 was issued to our Company. The name of our Company was changed to 'Bannari Amman Spinning Mills Limited', pursuant to a special resolution of our Shareholders passed in an extra-ordinary general meeting dated September 30, 1991 and a fresh certificate of incorporation dated October 11, 1991, consequent to such name change was issued to our Company by the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Coimbatore. There has not been any change in the registered office of our Company since incorporation

> Registered Office: 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 043, Tamil Nadu, India. Tel: +91 422 243 5555; Fax: NA E-mail: shares@bannarimills.com; Website: www.bannarimills.com; Contact Person: Nachimuthugounder Krishnaraj, Company Secretary and Compliance Officer; Corporate Identification Number: L17111TZ1989PLC002476

PROMOTERS OF THE COMPANY: SANGAMPALAYAM VEDANAYAGAM ARUMUGAM, MURUGAN ENTERPRISE PRIVATE LIMITED AND SAKTHI MURUGAN TRANSPORTS PRIVATE LIMITED

ISSUE OF [●] EQUITY SHARES ("RIGHTS EQUITY SHARES") WITH A FACE VALUE OF ₹ 5 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [♠] PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO ₹ 10,000 LAKHS TO OUR ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON A RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF [ ] FULLY PAID-UP RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY [ ] FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. [a] ("THE ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARE IS [a] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 225 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER ("DLOF").

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended (the "SEBI ICDR Regulations"), to state that Bannari Amman Spinning Mills Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of equity shares to equity shareholders onrights basis and has on April 27, 2021 filed the DLOF dated April 26, 2021 with the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI") Southern Regional Office situated at Overseas Towers, 7th Floor, 756 – L, Anna Salai, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India and simultaneously through the SEBI Intermediary Portal at https://siportal.sebi.gov.in, in accordance with SEBI circular dated January 19, 2018 bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2018/011.

Pursuant to Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with SEBI is open to public, for comments, if any. The DLOF is hosted on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of recognized stock exchanges where the equity shares are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of the Sole Lead Manager i.e. Saffron Capital Advisors Private Limited at www.saffronadvisor.com. All members of the public are hereby invited to provide their comments on the DLOF to SEBI with respect to the disclosures made in the DLOF. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company and to the Lead Manager to the Issue at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by the Company or by the Lead Manager on or before 5 p.m. on the 21st (twenty first) day from the aforementioned date of filing the DLOF with SEBI.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note that the distribution of the DLOF and the Issue of equity shares on rights basis to persons in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Accordingly, any person who acquires Rights Entitlements or Rights Equity Shares will be deemed to have declared, warranted and agreed that at the time of subscribing for the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in other restricted jurisdictions. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in any other jurisdiction which have any restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within its jurisdiction, and/or to its citizens. The offering to which the DLOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlement.

Investments in equity and equity related securities involve a high degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read "Risk Factors" carefully before taking an investment decision in relation to this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and the Issue including the risks involved. The securities being offered in the Issue have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the DLOF. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 24 of the DLOF before making an investment in this Issue.

For details of the share capital of the Company, see "Capital Structure" on page 63 of the DLOF. The liability of the members of our Company is limited. The existing Equity Shares are listed on BSE and NSE.

Note: Capitalised terms not defined herein shall have the same meanings ascribed to such terms in the DLOF

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

# SAFFRON

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 605, Center Point, 6th floor, Andheri Kurla Road, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059, Maharashtra, India. Telephone: +91 22 4082 0914/915 Facsimile: +91 22 4082 0999 E-mail: rights.issue@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com; Investor grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com Contact Person: Amit Wagle / Gauray Khandelwal SEBI Registration Number: INM 000011211 Validity of Registration: Permanent

## REGISTRAR TO THE ISSUE

# **LINK**Intime

Link Intime India Private Limited C - 101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4918 6200 **Facsimile:** +91 22 4918 6195 E-mail: bannari.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in; Contact person: Sumeet Deshpande Investor grievance: bannari.rights@linkintime.co.ir CIN: U67190MH1999PTC118368 SEBI Registration No: INR000004058 Validity of Registration: Permanent

For and on behalf of BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED

Nachimuthugounder Krishnaraj Company Secretary and Compliance Office

Date:April 27, 2021

Disclaimer: "Bannari Amman Spinning Mills Limited" is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on rights basis and has filed a DLOF with the Securities and Exchange Board of India. The DLOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and the website of the Lead Manager at Saffron Capital Advisors Private Limited at www.saffronadvisor.com. Investors should note that investment in securities involves a high degree of risk and are requested. to refer to the DLOF, including the section "Risk Factors" beginning on page 24 of the DLOF."



Char Ki Baat CIN NO.: L65922DL1988PLC033856

#### EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(₹ in Crore)

(F in Crore)

					(* 111 01010)
S. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2020 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)
1.	Total Income from Operations	1,831.68	7,603.92	1,946.44	8,481.84
2.	Net Profit for the period (Before Tax, Exceptional and Extraordinary item)	188.14	1,207.03	(327.24)	811.01
3.	Net Profit for the period Before Tax, (After Exceptional and Extraordinary item)	188.14	1,207.03	(327.24)	811.01
4.	Net Profit for the period after Tax, (After Exceptional and Extraordinary item)	127.03	929.90	(242.06)	646.24
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive Income after tax)	166.62	909.21	(324.01)	590.94
6.	Equity Share Capital	168.27	168.27	168.19	168.19
7.	Reserve (Excluding Revaluation Reserves)/Other Equity		8,754.76		7,829.58
8.	Earnings per Share (of ₹10/- each)*				
	(1) Basic (₹)	7.55	55.29	(14.39)	38.45
	(2) Diluted (₹)	7.55	55.26	(14.38)	38.41

\* EPS for the quarter are not annualised.

The key data relating to standalone results of PNR Housing Finance Limited is as under

The key data relating to standardie results of Five Housing Finance Limited is as under.								
SI. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2020 (Audited)	Year Ended 31-03-2020 (Audited)			
1.	Total Income from Operations	1,813.40	7,565.20	1,919.91	8,478.32			
2.	Profit before Tax	174.52	1,186.72	(351.18)	825.00			
3.	Tax Expense	44.54	261.50	(88.06)	142.69			
4.	Net Profit after Tax	129.98	925.22	(263.12)	682.31			
5.	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive Income after tax)	169.35	903.97	(345.16)	626.62			

# NOTES:

1. The above-mentioned results for the quarter and year ended March 31, 2021 are reviewed and recommended by the Audit Committee of Board and subsequently approved by Board of Directors at the meeting held on April 27, 2021.

2. The extent to which the COVID 19 pandemic, including the current "second wave" will impact the Company's future results

will depend on economic situation, which is highly unpredictable. The Company will continue to closely monitor any material changes

to future economic conditions. However, operating in the secured mortgage asset business we believe we hold a much stable asset class which can withstand the pandemic relatively better compared other asset classes. Hon'ble Supreme Court, in a public interest litigation vide an interim order dated September 03, 2020 ('interim order'), has

directed that accounts which were not declared NPA till August 31, 2020 shall not be declared as NPA till further orders. Basis the said interim order, even accounts that would have otherwise been classified as NPA post August 31, 2020 were not been classified as NPA. The interim order granted to not declare accounts as NPA stood vacated on March 23, 2021 vide the judgement of the Hon'ble Supreme Court. In accordance with the instructions in paragraph 5 of the RBI circular dated April 07, 2021 issued in this connection, the Company has continued with the asset classification of borrower accounts as per the extant RBI instructions / IRAC

3. During the quarter ended March 31, 2021, the Company has allotted 75,715 equity shares of ₹ 10 each pursuant to exercise of stock options by employees

4. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for quarter and year ended March 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021, are available on BSE

Date : April 27, 2021 Place: New Delhi Regd. Office: 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K. G. Marg, New Delhi-110001(India)

(www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and the website of the company (www.pnbhousing.com) For PNB Housing Finance Limited **Hardayal Prasad Managing Director & CEO** DIN: 08024303

Website: www.pnbhousing.com WE ACCEPT PUBLIC DEPOSITS AT ATTRACTIVE RATES OF INTEREST | CALL: 1800-120-8800 |

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम एवं ओएनजीसी की सहायक कंपनी) Corporate Identity Number: L23209KA1988G01008959 पंजीकृत कार्यालय: मुडपदव, पोस्ट कुत्तेतूर, वाया काटिपल्ला, मंगलूरु - ! E-mail: investor@mrpl.co.in Website: www.mrpl.co.in - 575030



सेबी लिस्टिंग विनियमन 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुसरण में एतृद्वारा सूचित किया जाता है कि **शुक्रवार 7 मई 2021** के कंपनी के निदेशक-मंडल की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों पर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ **31 मार्च 2021** को समाप्त वर्ष करें स्टेंडअलोन और कन्सोलिडेटेड लेखा परीक्षित तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुमोदन किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभांश की सिफारिश की जाएगी, यदि कोई है तो।

कंपनी की वेबसाइट www.mrpl.co.in और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी उपरोक्त नोटिस संबंध कृते मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिट्रेड स्थान : **मंगलूरु** दिनांक: **27/04/2021** णबंध निदेश्व

प्रवध निद्शक नोट : 1) सेबी ने आदेश किया है कि शेयरों के हस्तांतरण को प्रभावी करने के लिए अनुरोध तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि जमाकर्ताओं के साथ डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर नहीं होते हैं। इसके संदर्भ में, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ डीमेट खाता खोलें और आसानी से नकदी के लिए शेयरों को डिमटेरियलाइज करें। 2) शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे जल्द ही अपने केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करें।

आईए, हम एक साथ मिलकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें



होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड सीआईएन : U65990MH2010PTC240703 nomefirst सीआईएन : U65990MH2010P1C240705 वेबसाइट : homefirstindia.com दूरभाष नं. : 180030008425

ई-मेल आईडी : loanfirst@homefirstindia.com धारा 13(2) के तहत मांग सुचना

आप निम्नलिखित कर्जदार ने अनुसूची उल्लिखित सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण ग्रहण किया है और आप निम्नलिखित ऋण सह बन्धक अनुबन्ध हेतु कर्जदार/सह-कर्जदार, जमानती के रूप में प्रस्तुत हुए। आपके द्वारा चूक करने के कारण आपके ऋण खाते को प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफैसी अधिनियम) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत 05.04.2021 को गैर-निष्पादन आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हम होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड ने आपके द्वारा प्रदत्त पते पर सरफैसी अधिनियम की धारा 13(13) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत माँग सुचना निर्गत की थी। कथित सुचनाएं 23.04.2021 को निर्गत की गयी हैं और इन सुचनाओं में कहा गया है कि आपने विभिन्न स्वीकृत ऋणों के भुगतान में चूक की है। अतः वर्तमान सूचना सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानों तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के सन्दर्भ में सर्व करने के लिए प्रकाशित की

મુંબા હા		
खाते, कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) के नाम	**	माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि तथा भावी ब्याज एवं अन्य व्यय
अमित कुमार शर्मा एवं पवन कुमार शर्मा	प्लॉट सं. 64 एवं 65, बालाजी नगर प्रथम बस्सी योजना में, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान-303301	र्फ. 9,38,338∕-

रतद्वारा आपको ब्याज तथा लागत सहित उपर्युक्त राशि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर होम फस्त नाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड को अदा करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिय लिमिटेड कर्जदारों, बंधककर्ताओं तथा जमानतियों की प्रतिभृत आस्तियों पर कब्जा करने सहित समस्त या किसी एक या अधिक प्रतिभृत आस्तियों के विरुद्ध कथित अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही करेगा। कथित अधिनियम के तहत होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड के पास उपलब्ध शक्तियों में शामिल हैं (1) प्रतिभृत आस्तियों को अवमुक्त करने के लिए पटटे, बिक्री के एसाइनमेंट द्वारा अन्तरण के अधिकार सहित कर्जदारों/जमानतियों की प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा करना (2) पट्टे, एसाइनमेंट या बिक्री द्वारा अन्तरण के अधिकारों सहित प्रतिभूत आस्तियों के प्रबन्धन का अधिग्रहण करना तथा प्रतिभूत आस्तियों की वसूली करना और होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रतिभृत आस्तियों का कोई अन्तरित प्रतिभृत आस्तियों के सम्बन्ध में किसी अन्तरण क अधिकार मानो यह आपके द्वारा किया गया हो।

कथित अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के सन्दर्भ में एतद्वारा आपको होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड की पूर्व सहमति के बिना होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड के पास उपर्यक्त सन्दर्भित दृष्टिबन्धक/बन्धक किसी भी प्रतिभति आस्ति के बिक्री, पट्टे या अन्य विधि (आपको प्रकार्य के सामान्य व्यवहार के अतिरिक्त) से अन्तरण करने से निषिद्ध किया जाता है।

स्थान : जयपुर हस्ताक्षरकर्ता : अधिकृत प्राधिकार तिथि : 28.04.2021 होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड



होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड CIN: U65990MH2010PTC240703 वेबसाइट: homefirstindia.com फोन सं.: 180030008425

धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप नीचे उल्लेखित उधारकर्ता ने अनुसूची में उल्लेखित संपत्ति को बंधक रखकर ऋण लिया है और आप नीचे उल्लेखित ऋण समझौते के लिए उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता गारंटर के रूप में हैं। आपके द्वारा किए गए बकायेदारों के परिणामस्वरूप , आपके ऋण खाते को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 **(लघु सरफैसी अधिनियम में)** के प्रावधानों के तहत दिनांक 05/04/2021 को गैर—निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हम होम **फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड** ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के सहपठित धारा 13(<sup>7</sup>13) के तहत आपके द्वारा दिए गए पते पर मांग सूचना जारी कि थी। पंजीकृत डाक द्वारा आपको भेजी गई सूचना वापस प्राप्त होती हैं और असेवित वापस आ जाती हैं। उक्त सूचनाएं **दिनांक 23/04/202 1** को जारी की गई और इन सूचनाओं का विषय वस्तु यह है कि अपने आपको गारंटीकृत विभिन्न ऋणों के भगतान में चुक की थी। इसलिए, वर्तमान प्रकाशन को सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान के रूप में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों , 2002 के नियम 3( 1 ) के प्रावधान के संदर्भ में सूचना के रूप में लियो जाये :

खाता, उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) का नाम और पते	लागू होने वाली प्रतिभूति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि संग भविष्य का ब्याज और अन्य व्ययों
अनिल कुमार	प्लाट सं. 106, बिल्डिंग ए–30, पहला तल, ड्रीम होम–3 प्लाट सं. ए–30, ग्राम सरफाबाद, सेक्टर–75, नोएडा नोएडा–201110	रु. 11,25,526/−
मो. राशीद नियाजी और नगमा	फ्लेट –यूजी–2 ऊपरी भूतल पारस रेसिडेन्सी, रवि एनक्लेव, नयागांव, सेक्टर–87, नोएडा नोएडा उत्तर प्रदेश–201305	रु. 16,55,403/–

एतद्द्वारा आपको इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों की अवधि के भीतर **होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया** लिमिटेड का भुगतान करने का आहवान किया जाता है, असफल होने पर उपरोक्त राशि ब्याज और लागत के साथ होम **फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड** उधारकर्ताओं, बंधककर्ताओं और गारंटरों की प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को कब्जे में सहित सभी या किसी एक या अधिक प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्य कार्रवाई करेगी। उक्त अधिनियम के तहत **होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड** को उपलब्ध शक्ति में (1) उधारकर्ताओं / गारंटरों की प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को कब्जा लेने की शक्ति स हित पट्टे के माध्यम से स्थानांतरित करने के अधिकार, प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मोचन करने के लिए बिक्री का अभिहसांकन सहित शामिल है। (२) प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन जिनमें पट्टे, अभिहस्तांकन या बिक्री के तरीकों से हस्तांतरण करने के अधिकार शामिल हैं और प्रत्याभृत परिसंपत्तियों को छुड़ाने और **होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड** द्वारा प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के रूप में किसी भी हस्तांतरण को स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारों और संबंधों में निहित होगा क्योंकि यह हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के संदर्भ में, आपको एतदुद्वारा बिक्री, पट्टे या अन्यथा (आपके व्यवसाय के सामान्य तरीके के अलावा), ऊपर वर्णित किसी भी प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को और **होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड** की पूर्व सहमति के बिना हायपोथिकेटेड / बंधक रखकर स्थानांतरित करने से मना किया जाता है।

स्थान : गाजियाबाद हस्ताक्षरित द्वारा : प्राधिकृत अधिकार्र दिनांक : 28/04/2021

होम फर्स्ट फाइनें स कम्पनी इंडिया लिमिटेड



(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

ASSET RECOVERY MANAGEMENT - I, No.86, Spencer Tower ,MG Road, Bangalore-560 001. Phone no.080-25588642,25588641, Extn: 530, e-mail cb2366@canarabank.com

बिक्री सुचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम ६(६) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल√चल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

रतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल/चल सम्पत्ति जिसका केनरा बैंक की एआरएम शाखा-1, बेंगलुरू के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा कर लिया है, की 1. मैसर्स ालोबल एग्री सिस्टम्स प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय : जे–10, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली–110016. 2. मैसर्स सनशाइन एग्री सिस्टम्स प्रा.लि., पुराना खुर्जा रोड, सिकन्दराबाद देहात, बुलन्दशहर (जिला), उत्तर प्रदेश, पिन-203001, 3. मैसर्स आम्या फुड्स प्रा.लि., गेट नं. 77/3 भाग एवं 78, शिरसगांव (ग्राम), शिरसगांव–कसाबे सनकीन रोड, निफाद (तह. एवं जिला), नासिक, महाराष्ट्र, पिन–42206, 4. श्री गोकुल पटनायक, निवासी टी–9 (एफ-एफ), ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली, पिन-110016, 5. श्री रमेश वांगल, 7, ऑरेन्ज ग्रोव रोड, सं. 03-146, सिंगापुर, पिन-258355 से केनरा बैंक की एआरएम-1 शाखा बेंगलुरू के बकाया रु. 3044.46 लाख एवं उस पर भावी ब्याज तथा लागत की वसूली के लिए 12.05.2021 (10.00 बजे पूर्वा से 10.30 बजे पूर्वा.) को ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मृल्य एवं जमा धरोहर राशि का विवरण निम्नलिखित है तथा जमा धरोहर राशि 10.05.2021 को 5.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व जम की जानी है।

	क्र.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित	ईएमडी	वृद्धि मूल्य
	सं.		मूल्य	राशि	
	1	खाता खतौनी सं. 340/1846, खसरा नं. 1975/1, 1975/2, 1975/3, 1975/5, 1975/6, 1975/7	रु. 332.00	रु. 33.20	रु. 1.00 लाख
		पर 1.846 हेक्टर भूमि सम्पत्ति जो 4.56 एकड़ के समतुल्य है, सिकन्दराबाद, देहातपर्ग, सिकन्दराबाद	लाख	लाख	
		तहसील, बुलन्दशहर जिला पर मैसर्स सनशाइन एग्री सिस्टम्स प्रा.लि. के नाम पर सम्पत्ति की भूमि			
		सिंहत भवन (कोल्ड स्टोरेज इकाई) का सम्पूर्ण भाग तथा सीमाएं : उत्तर : पुराना खुर्जा रोड, दक्षिण			
		ः प्रेमपाल, मनवीर का खेत, पूर्व ः चकरोड, पश्चिम ः डीएसबी फैब्रिकेशन प्रा.लि. की सम्पत्ति।			
İ	2	मैसर्स सनशाइन एग्री सिस्टम्स प्रा.लि. के नाम में सम्पत्ति पर स्थित औद्योगिक इकाई पर उपलब्ध	रु. 45.00	रु. 4.50	रु. 0.50 लाख
		मशीनरी	लाख	लाख	
ſ	3	एसवाई सं. गेट सं. 77/3 तथा 78, विस्तार 12,600 वर्ग मीटर, शिरसगांव ग्राम, निफाद तालुक,	रु. 345.00	रु. 34.50	रु. 1.00 लाख
		नासिक जिला पर मैसर्स अमाया फूड्स प्रा.लि. के नाम पर भूमि तथा भवन (कोल्ड स्टोरेज इकाई)	लाख	लाख	
		का सम्पूर्ण भाग तथा सीमाएं : पूर्व : गेट सं. 77, पश्चिम : गेट सं. 81 एवं 82, उत्तर : गेट सं.			
ļ		77 एवं 78, दक्षिण : गेट सं. 80.			
	4	मैसर्स अमाया फूड्स प्रा.लि. के नाम में सम्पत्ति पर स्थित औद्योगिक इकाई पर उपलब्ध मशीनरी	रु. 43.00	रु. 4.30	रु. 0.50 लाख
			लाख	लाख	

नोट : जो व्यक्ति लॉट सं. 1 के लिए संविदा का इच्छुक है उसे लॉट सं. 2 की सम्पत्ति हेतु भी संविदा करनी होगी और जो व्यक्ति लॉट सं. 3 हेतु संविद के इच्छुक हैं उन्हें लॉट सं. 4 की सम्पत्ति हेतु भी संविदा करनी होगी। लॉट सं. 1 तथा 3 की अकेली सम्पत्ति हेतु संविदा स्वीकार नहीं की जायेगी किन्तु लॉट सं. 2 तथा 4 की सम्पत्तियों हेतु स्वतन्त्र संविदा स्वीकार की जायेगी।

ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो : बैंक के संज्ञान में नहीं।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया केनरा बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) में प्रावधानित लिंक 'ई-नीलामी' का संदर्भ ले अथवा किसी भी कार्यदिवस में कार्यालयी घंटों के दौरान मुख्य प्रबन्धक, एआरएम-1 शाखा, बेंगलुरू, केनरा बैंक, दूरभाष नं. 9483532366 से सम्पर्क करें

Date: 26.04.2021 Place: Bengaluru Canara Bank

Sd/- Authorised officer

र्पालयः राज टॉवर. शिवाजी नगर. दिल्ली रोड सहारनपुर- 247001 (उ0प्र0) शुद्धिपत्र

आम जनता का सूचित किया जाता है कि दिनांव 14.04.2021 (बिजनेस स्टैंडर्ड, नई दिल्ली संस्करण) के समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-नीलामी नोटिस दिनांक 13.04.2021 को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।

दिनांकः 27.04.2021 प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक स्थानः सहारनपुर

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा जन साधारण को सूचना दी जाती है कि श्रीमती नीलम गुप्ता पति श्री संजय कुमार के साथ श्री रजत पिता श्री संजय कुमार ए3-409, मिलन विहार अपार्टमेंटस, प्लॉट नं.-72, आई.पी. एक्सटेंशन पतपड़गंज, दिल्ली में स्थित रिहायसी फ्लैट के लिए जेआर एम्पायर के साथ इसके साझेदार श्री जय भगवान गर्ग के जरिए एटीएस में प्रवेश किया है, सम्पत्ति सभी तरह के ऋण से मक्त है। किसी भी व्यक्ति का उक्त सम्पत्ति के संबंध में बिक्री, विरासत कब्जा, उत्तराधिकार, गिरवी, दावा, पट्टा, उपहार आसक्ति अथवा अन्य किसी भी रूप में कोई अधिकार मालिकाना, दावा अथवा हित निहित है, तो वे अपनी आपत्ति इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के अंदर अपने समर्थित दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष लिखित रूप से दर्ज करें अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा यह माना जाएगा कि कोई भी दावा नहीं है तथा/अथवा उसे परित्यत्त माना जाएगा। तारीखः 28 अप्रैल, 2021

सी 202 प्रिंस अपार्टमेंट्स, 54 आईपी एक्सटेंशन

दिल्ली-110092. मोबाइलः +91 9868544444

रजत

स्थानः दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

धारण को यह सूचित किया जाता है कि राजनीति दल **पुन्नगै देशम पार्टी** के नाम से रजिस्टीकत होन प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय 3/58बी, मेन बाजार, ायकुलम, सात्तानकुलम तालुक, तूत्तुक्कुडि जिला तमिलनाड़-628613 में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टीकरण के लिए भार निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है पार्टी के पदाधिकारियों के नाम/पता नीचे दिए गए है:-सभापति / अध्यक्ष: एंटनी राजा सिंह, एल, S/c

लॉरेंस, 9/97, करुंकडल, सात्तानकुलम तालुक तूत्तुक्कुडि जिला - 628613. उपाध्यक्ष: जूधा गांधी जेबसेल्वन. ए, S/o. आशिर्वादम जेबराज, 5/155, कट्टारिमंगलम, सात्तानकुल

तालुक, तूत्तुक्कुडि जिला – 628613. महासचिव / सचिव: ऐंसी जुलियट. एस, W/c स्टालिन, 3/46, श्री वेंकटेश्वरपुरम, सात्तानकुलम तालुक, तूत्तुक्कुडि जिला – 628613.

**कोषाध्यक्षः जेसुदुरै. ए, S/o**. आरोग्यपालम, 9/96, करुंकडल, सात्तानकुलम तालुक, तूत्तुक्कुडि जिला 628613.

यदि किसी को पुन्नगै देशम पार्टी के रजिस्ट्रीकरण कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल), भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-11000 को, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजें।

अचल संपत्तियाँ की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु जन सूचन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गटन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 (एतद्वारा आगे "अधिनयम") के अधीन आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल-एचएफएल) कॉपिट कार्यालयः प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव-122015 (हरियाणा) एवं शाखा कार्यालयः ऑफिस नं.1, पहली मंजिल, महालक्ष्मी मेट्टो टावर, प्लॉट नं.सी-1, सेक्टर-4, बैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 को गिरवी एखी अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि निम्नलिखित कुरण खाता/अस्मियन में, अधिनयम की धारा 13(2) के अधीन जाती सुचना के संबंध में निम्नलिखित संपत्ति/यों को आईआईएफएल-एचएफएल को बकाया गिय की बसूली के लिए "जैसे है जहाँ है आधार पर" एवं "जैसे है जो है आधार पर" बेचे जाने के अधिकार के साध आईआईएफएल-एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने कब्जा ले लिया था। अधीहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.bankeauctions.com पर प्रदत्त हैं-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री की जाएगी।

THE WWW.Dankeaddions.com 12 Agri 2 Highl Clean 1 Highl Clean 1 Highl					
ऋणी/सह–ऋणी/ गारंटर		मांग सूचना पत्र की तिथि और राशि	अचल सपंत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण		भौतिक कब्जा की तिथि
		23-मार्च-2017	संपत्ति के सभी एवं अंश जो फ्लैट नं. एफएफ3, पीछे का आरएचएस फ्लैट,		27-मार्च-2021
- 11 - 0		रु. 10,16,703/- (दस लाख सोलह	पहली मंजिल, प्लॉट नं. ए-129, एसए	लएफ वेद विहार, लोनी, गाजियाबाद,	06-अप्रैल-2021 को
श्री देवेन्द्र मिश्रा हजार सात सौ तीन रुपये मात्र)		हजार सात सौ तीन रुपये मात्र)	उत्तरप्रदेश में है (क्षेत्रफल:400 वर्ग फीट)		कुल बकाया राशि
श्रीमती रानी मिश्रा					₹. 10,55,601/-
स्पेक्ट नं. 73	3288)	बोली वृद्धि राशि	आरक्षित मूल्य	अमानत राशि जमा (ईएमडी)	(दस लाख पचपन हजार छह सौ
		रु. 20,000/−	₹. 9,50,000/-	<b>ਚ.</b> 95,000/−	एक रुपये मात्र)
ईएमडी अंतिम तिथि		(बीस हजार रुपये मात्र)	(नौ लाख पचास हजार रुपये मात्र)	(पचानबे हजार रुपये मात्र)	
	भुगतान वि	धिः सभी भुगतान गुरुग्राम में देय "आईआईए	फ़्फ़्ल होम फाइनैंस लिमिटेड" के पक्ष में	डिमांड ड्राफ्ट या आस्टीजीएस/एनईएफ	<b>टी के माध्यम से</b> किए जाने चाहिए।
-जून−2021	अकाउंट का	। विवरण निम्नानुसार है: <b>क) अकाउंट का नाम</b>	:–आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड,	, ख) बैंक का नाम:स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लि.	, ग) अकाउंट नं.:53105066294,

28-मई-2021, 11.00 बजे-14.00 बजे <u>नीलामी की तिथि/समय</u> 07-जून-2021, 11.00 बजे-13.00 बजे

शाम 5 बजे तक घ) आईएफएससी कोड: SCBL0036025 या इस पेमेंट लिंक के माध्यम से: https://quickpay.iiflfinance.com

नियम और गरों:

| ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को अपना विवरण सेवा प्रदाता https://www.bankeauctions.com के पास यथा पूर्व दाखिल करना होगा एवं लॉगिन अकाउंद, लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड नियार करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी के लिए भुगतान विवरण, केवाईसी एवं पैन कार्ड की प्रति के साथ अपना "निवदा प्रपत्न" उपरोक्त शाख कार्यालय में भेजना/ज्ञान करना होगा।
2 बोलीदाता "बोली वृद्धि ग्रिश" खंड के अंतर्गत वर्णित ग्रिश के गुणक में अपने प्रस्ताव को बढ़ाएंगे। यदि बोली नीलामी के अंतिम समय के अंतिम 5 मिनट में की जाती है, तो अंतिम

म्मय म्वतः ५ मिनट के लिए बढ़ जाएगा।

समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा। सफल बोलीदाता एओ (प्राधिक्व) अधिकारी द्वारा बोली मुल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के अंदर बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजन के बाद) जमा करेंगे एवं बोली राशि क शेष 75% मुल्य प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री की स्वीकृति तिथि देने से 15 दिनों के अंदर जमा किया जाएगा। सभी जमा एवं भुगतान निर्धारित भुगतान विधि के अनुसार किए जाएंगे चुंगी, प्रयोज्य स्टांग ड्यूटी, शुल्क, एवं कोई अन्य साविधिक बकाया या अन्य बकाया जैसे कि निगम कर, बिजली प्रभार, भू एवं सभी अन्य प्रासगिक लागत, प्रभार जिसमें संपिर से संबंधित सभी कर एवं दर प्रामित्त हैं, का वहन खरीदत द्वारा किया जाएगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों तथा नीलामी आवेदन

बालादातआ का सलाह दा जाता है कि इन्नालामा बुक्त अध्या में मां लग्न के लिए, उपलाब बाला जमां कर निल्त निल्त निल्त में अप ता तथा नालामा आवदन फूर्मी हुँचे हुए के हिन्द नालामा बुक्त के कि हुए ताला कर के कि हुए के कि हुए तालामा के बिक्त के कि हुए तालामा के बिक्त के कि हुए के कि हुए के कि हुए तालामा अध्याप के लिए, प्रत्याशित बोलीदाता सेवा प्रदाता के ई मेल आईडी: –support@bankeauctions.com , सपोर्ट हेल्पलाइन न : @ 7291981124/25/26 एवं संपत्ति से संबंधित कोई पुख्ताछ के लिए, श्री जय नायर @ 9910999001, ई-मेल आईडी: –jay,nair@iffl.com पर संपर्क कर सकते हैं। उपर्युक्त निर्धारित समय के अंदर सफल बोलीदाता/नीलामी खरीदार द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में कोई चूक की जाती है, तो बिक्री रह कर दी जाएगी एवं पहले से ही भुगतान की गई राशि (ईएमडी समेत) जब्त कर ली जाएगी एवं संपत्ति को फिर से नीलाम में रखा जाएगा। बिना कोई कारण बताबे निविदा/नीलामी को स्थगित करने/रह करने तथा नियम और अतों में परिवर्तन करने का अधिकार एओ (प्राधिकृत अधिकारी) के पास सुरक्षित है। निवदा/नीलामी

बना कोड़ कारण बताय ानावदा/नालामा का स्थागन करन/रह करन तथा ानयम आर शता म पास्ततन करन का आधकार एआ (आधकृत आधकार) के पास सुराक्षत हो ानावदा/नालाम में कोई विवाद उत्पन्न होने पर, आईआईएफ्एल ट्राच्यफ्एल के एश्रों का निर्णय अंगिन होगा। **सरफेर्सी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अधीन सांविधिक 30 दिनों की बिक्री सूचना** कृणियों को निवदा/नीलामी की तिथि से पूर्व नवीनतम तिथि तक के ब्याज एवं अनुषंगी ब्याय के साथ उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है अन्यथा संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी/बेच दी जाएगी एवं शेष बकाया राशि की बसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी। स्थानः गाजियाबाद

होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड CIN:U65990MH2010PTC240703 Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

मांग सूचना धारा 13(2) के अंतर्गत

आप नीचे वर्णित ऋणी ने सारणी में वर्णित संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण प्राप्त किया है और आपको नीचे वर्णित ऋण अनुबंध के लिए ऋणी/सह-ऋणी गारंटर के रूप में रखा गया है। आपके द्वारा प्रतिबद्ध में असफलताओं के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 **(संक्षेप में सरफेसी अधिनियम)** के प्रावधानों के अंतर्गत **05.04.2021** को गैर-परफार्मिंग संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। हम होम फर्स्ट फाइनेंस कपनी इंडिया लिमिटेड ने आपके द्वारा दी गए पते पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की थी। उक्त सूचनाएं 23.04.2021 को जारी की गई थीं और इन सूचनाओं में वर्णित है कि आप आपके द्वारा गांरटी विभिन्न ऋगों के भुगतान में दोषी के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार, वर्तमान प्रकाशन को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के संबंध में सचना के रूप में लिया जाए :

खाते, ऋणी(ओं) और गारंटर(ओं) के नाम व पता	कब्जा की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	मांग सूचना अनुसार देय राशि भावी ब्याज और अन्य व्ययों सहित
धनंजय कुमार सिंह	फ्लैट नं. 1006, ब्लॉक सी3, एवलॉन होम्स, गांव मसित, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी—301019	Rs. 6,47,688/-
धनंजय कुमार सिंह	फ्लैट नं. 1006, ब्लॉक सी3, एवलॉन होम्स, गांव मसित, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी—301019	Rs. 6,17,656/-
हरीश कुमार	फ्लैट नं. 446, टॉवर ई, अनंतराज आश्रय, प्लॉट 235, 236, 237, जैपनीज जोन, एनआईसी (एम), नीमराना, अल्वर –301705	Rs. 8,08,312/-

आपको एतदद्वारा ब्याज और लागत सहित उपरोक्त राशि की इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** को भुगतान करने के लिए बुलाते हैं, असफल होने पर **होम फर्स्ट** फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेडऋणियों, गिरवीकर्ताओं और गारंटरों की प्रतिभूतित संपत्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभूतित संपत्तियों की किसी एक या अधिक या सभी के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यकत कार्यवाही करेगा। (1) प्रतिभृतित संपत्तियों को छुडाने के लिए बिक्री के लीज, एसाइनमेंट द्वारा हस्तांतरण के अधिकारों सहित ऋणियों / गारंटरों की प्रतिभूतित संपत्तियों का कब्जा लेने का अधिकार (2) **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया** लिमिटेड द्वारा प्रतिभूतित संपत्तियों के अनुसार लीज, एसाइनमेंट या बिक्री द्वारा किसी हस्तांतरण और प्रतिभूतित संपत्तियों को छुड़ाने या किसी हस्तांतरण के अधिकारों सहित प्रतिभृतित संपत्तियों का प्रबंधन लेने सहित उक्त अधिनियम के अंतर्गत **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** को उपलब्ध अधिकार हस्तांतरित प्रतिभृति संपत्तियों के संबंध और सभी अधिकारों के लिए अधिकृत है क्योंकि यह हस्तांतरण आपके द्वारा किए गए हैं। उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के संबंध में, आप **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** की पूर्व सहमति के बिना **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड**को हाइपोथेकेटिड / गिरवी और उक्त के लिए संदर्भित अनसार किसी प्रतिभतित संपत्तियों को बिक्री, लीज या अन्यथा द्वारा हस्तांतरित करने के लिए प्रतिबंधित हैं।

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, स्थानः भिवाडी होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड दिनांकः 28.04.2021



Ghar Ki Baat Regd. Office: 9th Floor Antriksh Bhawan, 22 K. G. Marg, New Delhi-110001

CIN: L65922DL1988PLC033856 Disclosures in compliance with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the half

Credit Ratings assigned to Secured Redeemable Non-Convertible Debentures (NCDs) issued by the Company have been assigned CARE Rating of "CARE AA"

(Stable Outlook), India Ratings and Research Pvt. Ltd. "IND AA" (Negative Outlook), CRISIL Ltd. "CRISIL AA" (Negative Outlook), ICRA Ltd. "ICRA AA" ((Negative Outlook)), ICRA Ltd. "ICRA AA" (Negative Outlook), ICRA Ltd. "ICRA AA" (Negative Outloo

Credit Ratings assigned to Commercial Papers (CPs) issued by the Company: CARE Ratings Limited – A1+, CRISIL Ltd. – A1+ Asset cover available as on March 31, 2021 in case of the NCDs issued by the Company: 1.02 times Debt Equity Batio as on March 31, 2021: 6.73 times

The Company has paid interest and principal on Secured Redeemable Non-Convertible Debentures and Commercial Papers on due dates. Details of payment of interest/principal on NCDs and CPs is provided in Annexure-A.1

Paid up debt capital/Outstanding debt: Rs 11,871.70 Crore Outstanding Redeemable Preference Shares: NIL Debenture Redemption Reserve as on March 31, 2021: NIL

Net worth as on March 31, 2021: Rs. 8867.18 Crore

Details of red

ions of Con

Net Profit after Tax: Rs 353.25 Crore Earnings per share (EPS): Basic EPS Rs. 55.01 and Diluted EPS Rs.54.98

Details of payment of interest /principal on the Secured Redeemable Non-Convertible Debentures in accordance with Regulation 52(4)(d) and Regulation 52(4)(e) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

S No NCD Series ISIN October 1, 2020 to March 31, 2021) (April 1, 2021 to Sep er 30, 2021) (April 1, 2021 to Se er 30. 2021) Due date for Interest payment Due date for Principal repaymen Due date for Interest payment Due date for rincipal repaym INE572E09080 Series VIII 16.01.2021 16.01.2021 Series VIII 30.09.202 31.03.2021 31.03.2021 30.09.202 26.07.202 26.07.2021 200.00 INE572E09155 31.03.2021 8.63 13.88 12.09.2021 31.03.2021 31.03.2021 30.09.202 Series XI Series XIII Series XIV 31.03.2021 INE572E09189 30.09.202 9.00 INE572E09205 Series XV 31.03.2021 30.09.202 25.74 14.22 INE572E09203 INE572E09304 INE572E09338 INE572E07019 INE572E09353 Series XVII-B 31.03.2021 09.11.2020 31.03.2021 31.03.2021 09.11.2020 Series XXI 03.07.2021 10.73 03.07.2021 500.00 Series XXV 31.03.2021 10.54 01.09.202 01.09.2021 300.00 31.03.2021 Series XXVI INE572E09333 INE572E09361 INE572E09403 INE572E09429 INE572E09452 INE572E09486 INE572E09551 Series XXVIII-A Series XXX 31.25 9.89 2.53 1464.00 31.03.2021 01.07.202 31.03.2021 07.05.2021 320.00 Series XXXI 07.05.202 Series XXXIV-E Series-XXXVI-E 15.12.2020 15.12.2020 53.13 31.07.202 31.12.2020 31.12.2020 Series XLI-E INE572E09551 INE572E09569 INE572E09585 INE572E09601 INE572E09619 INE572E09643 15.03.2021 Series- XLII Series XLIII-B 06.04.202 189.00 Series XLVIII-E 30.08.202 31.95 Series LII Series II-Tier 19.08.202 30.09.202 INE572E09262 INE572E09320 INE572E09346 INE572E09387 INE572E09627 Series III Tier 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2021 30.09.202 8.70 8.84 30.09.202 30.09.202 Series VI-Tier I Series VII- Tier 31.03.2021 07.01.2021 30.09.202 21.38 07.01.2021 07.11.2020 Series VIII- Tier II INE572E0962 rest but premium on of zero coupon bo

**Previous Due Date** S.No. **CPSeries** ISIN (October 1, 2020 to March 31, 2021) (April 1, 2021 to Sept er 30, 2021) Due date for Principal repayment Amount (INR₹ Crore) Due date for Principal repayment Amount (INR₹Crore) INE572E14IE0 23-Dec 20 100 CP-479 25-Nov-20 04-June-2 CP-476 INF572F14IG5 INE572E14IH3

ercial Paper in accordance with Regulation 52(4)(d) and Regulation 52(4)(e) of the SEBI (Listing Obliga

For PNB Housing Finance Limited Sanjay Jain **Company Secretary and Head Compliance** 

ns and Disclo

nts) Regulations, 2015